



दूरभाष / Telephone :044- 28331011

फेक्स / Fax

:044-28389865

वस्तु और सेवा कर तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान मुख्य आयुक्त का कार्यालय, चेन्नई अंचल OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF GST AND CENTRAL EXCISE, CHENNAI ZONE

26/1, महात्मा गांधी मार्ग, नुंगम्बाक्कम, चेन्नई - 600 034 26/1, Mahatma Gandhi Road, Nungambakkam, Chennai 600 034

सी.सं/.C.No.II/03/22/2018-सं.नि.प्रा-.स्था/.CCA.Estt.

दिनांक/Date: 3 .10.2018

ORDER NO. 86 /2018

Sub: Posting & Transfer in the grade of Inspector – Reg.

In Partial modification to this Office Order No. 61/2018 dated 26.07.2018, the following Posting and Transfers in the grade of Inspector is ordered with immediate effect.

S. NO.	Emp. Code	Name of Officer S/SHRI/SMT./MS.	PRESENT PLACE OF POSTING	POSTED TO
1	1398	V. RAVI	COIMBATORE APPEALS (UOT TO MADURAI)	COIMBATORE APPEALS (RETAINED)
2	6814	V. M PUGHAZHENDHI	CHENNAI NORTH (UOT TO CHENNAI APPEALS-I)	CHENNAI NORTH (RETAINED)
3	7774	SANDESH KUMAR	UOT TO PR. CCO (on loan basis to DGGSTI, Chennai)	Pr. CCO
4	3777	R. VENKATESAN	COIMBATORE APPEALS	COIMBATORE APPEALS (RETAINED UPTO AGT 2019)
5	2940	N. ATHILAKSHMI	CHENNAI APPEALS-I	CHENNAI APPEALS-II

02. Further, the following Posting and Transfers in the grade of Inspector is also ordered with immediate effect.

S. NO.	Emp. Code	Name of Officer S/SHRI/SMT./MS.	PRESENT PLACE OF POSTING	POSTED TO
6		RISHIKESH SINGH	PR. CCO (UOT to PR. CCO II)	CHENNAI NORTH
7	7811	RAVINDER YADAV	COIMBATORE	PR. CCO(on loan basis to DGGI, Chennai)
8	8618	UDAY KIRAN B.	PR. CCO	CHENNAI OUTER

03. The Officer at Sl No. 7 is eligible for transfer benefits.

- 04. All the officers mentioned above must be relieved so that they may join their new place of posting **on or before 10.10.2018**. No representation whatsoever shall be entertained before they join at their new place of posting. A Compliance report regarding relieving and joining of the above officers may be furnished to this office **by 12.10.2018**.
- 05. All representations received as on date regarding Posting and Transfer in the grade of Inspector stand disposed off.
- 06. This order is issued with the approval of the Competent Authority, Cadre Control, Tamil Nadu and Puducherry.

(मानसा गंगोत्री काटा / MANASA GANGOTRI KATA) संयुक्त आयुक्त / JOINT COMMISSIONER

To,

The Individuals (Through the Officer concerned).

Copy submitted to:

The Principal Commissioner / Commissioner of GST & Central Excise,

Chennai North/ Chennai Outer/ Chennai Appeals I/ Chennai Appeals II/Madurai/Coimbatore/ Coimbatore Appeals.

The Additional Director General, DGGI, Chennai.

Copy to:

- 1. The CAO, Pr. CCO, Chennai.
- 2. The Administrative Officer (Service Book) -Coimbatore Commissionerate.

 The service books of the Officer at Sl.No.7 may be sent to Pr. CCO immediately on receipt of the joining report.
- 3. The Administrative Officer (Estt)/ (DDO), Pr. CCO, Chennai the date of joining of the Officer at DGGI may be considered as the date of joining in Pr. CCO for all administrative purposes.
- 4. The Superintendent, Computer Section, Chennai North for display on official website.
- 5. Hindi Cell for translation.
- 6. Master File/ Spare copy.